

2/16/A

उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा अनुभाग-२

संख्या ३/८/XXVIII-२/०३(१९)२०१३

देहरादून: दिनांक १९ मार्च, २०१३

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा याचिका संख्या-२८४/२०१२, Court on its own motion Vs. Union of India and Ors में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में, उत्तराखण्ड राज्य से श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों हेतु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये निम्नानुसार चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों को नामित किया जाता है:-

| क्र.सं. | चिकित्सालय का नाम | चिकित्सक का नाम/पद नाम |
|---------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | दून चिकित्सालय, देहरादून | डा० एस०डी० जोशी, वरि० फिजीशियन डा० एन०एस० बिष्ट, वरि० फिजीशियन डा० मुकेश सुन्दरियाल, वरि० फिजीशियन डा० क०सी० पन्त, वरि० फिजीशियन डा० क०बी० जोशी, कार्डियोलॉजिस्ट डा० डी०एस० रावत, प्रमुख बाल रोग विशेषज्ञ |
| 2. | संयुक्त चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून। | डा० विजय सिंह धंवार, फिजीशियन डा० विजय सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ |
| 3. | प०दीन०द०उपा० राजकीय चिकित्सालय, देहरादून | डा० सुरेश कोठियाल, वरि० फिजीशियन |
| 4. | एस०पी०एस० चिकित्सालय, ऋषिकेश, देहरादून। | डा० एम०के० सैनी, वरि० फिजीशियन डा० रोहित उपाध्याय, बाल रोग विशेषज्ञ |
| 5. | संयुक्त चिकित्सालय, श्रीनगर, पौड़ी। | डा० मनोज बहुखण्डी, वरि० फिजीशियन डा० दिनेश सिंह चौहान, बाल रोग विशेषज्ञ |
| 6. | बेस चिकित्सालय, श्रीगंगर, पौड़ी। | डा० खेमपाल, वरि० सर्जन |
| 7. | संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार, पौड़ी। | डा० जगदीश चन्द्र ध्यानी, वरि० फिजीशियन डा० ए०के० चौधरी, वरि० कार्डियोलॉजिस्ट |
| 8. | बी०डी० पाण्डे पुरुष चिकित्सालय, नैनीताल। | डा० एम०एस० दुगताल, वरि० फिजीशियन |
| 9. | बी०डी० पाण्डे महिला चिकित्सालय, नैनीताल | डा० संजीव खर्कवाल, बाल रोग विशेषज्ञ |
| 10. | संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर, नैनीताल। | डा० बी०डी० जोशी, वरि० फिजीशियन डा० राजीव पुनेठा, वरि० बाल रोग विशेषज्ञ |
| 11. | बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल | डा० पी०एस० ताकुली, वरि० फिजीशियन डा० मदन सिंह बोहरा, वरि० बाल रोग विशेषज्ञ |
| 12. | जिला चिकित्सालय, बागेश्वर। | डा० संजीव कुमार गोस्वामी, वरि० बाल रोग विशेषज्ञ |
| 13. | संयुक्त चिकित्सालय, टनकपुर, चम्पावत। | डा० घनश्याम तिवारी, बाल रोग विशेषज्ञ |

| क्र.सं। | चिकित्सालय का नाम | चिकित्सक का नाम/मुद्र वर्णन |
|---------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 14. | जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़। | ₹10 डो०एस० धर्मसक्तु, वरि० फिजीशियन ₹10 एम०सी० राजवार, वरि० फिजीशियन ₹10 रविंद्र याल सिंह नेही, वरि० बाल रोग विशेषज्ञ |
| 15. | जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर | ₹10 एस०एस० कुंवर, फिजीशियन ₹10 शैलजा भट्ट, वरि० बाल रोग विशेषज्ञ ₹10 आर०डी० भट्ट, बाल रोग विशेषज्ञ ₹10 एम०के० तिवारी, वरि० कार्डियोलॉजिस्ट |
| 16. | एल०डी० भट्ट, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर | ₹10 मीता यशपाल सवत, वरि० फिजीशियन ₹10 बी०सी० जोशी, वरि० कार्डियोलॉजिस्ट ₹10 एस०एस० नवालयाल, बाल रोग विशेषज्ञ |
| 17. | जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा। | ₹10 आर०सी० पंत, चेस्ट, स्पेशलिस्ट |
| 18. | बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा। | ₹10 अनिल कुमार जोशी, चेस्ट स्पेशलिस्ट ₹10 हितेन जंगपांगी, वरि० बाल रोग विशेषज्ञ |
| 19. | श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्र नगर, टिहरी। | ₹10 सुनीत कुमारी, वरि० बाल रोग विशेषज्ञ |
| 20. | जिला चिकित्सालय, बौराडी, नई टिहरी | ₹10 संजय कण्ठवाल, वरि० फिजीशियन ₹10 के०एस० चौहान, बाल रोग विशेषज्ञ |
| 21. | जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी। | ₹10 अमित रौतेलम, फिजीशियन |
| 22. | जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग। | ₹10 बी०एस० चौहान, वरि० फिजीशियन |
| 23. | जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर, चमोली। | ₹10 कुसुमा रावत, बाल रोग फिजीशियन |
| 24. | जिला चिकित्सालय, हरिद्वार। | ₹10 चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी, बाल रोग विशेषज्ञ ₹10 संदीप निगम, बाल रोग विशेषज्ञ |
| 25. | संयुक्त चिकित्सालय, रुड़की, हरिद्वार। | ₹10 अरविंद कुमार मिश्रा, वरि० बाल सेम विशेषज्ञ |

2- श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों हेतु स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए चिकित्सालयों एवं चिकित्साधिकारियों को नामित करने विषयक शासन के पूर्व निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-251/XXVIII-2/03(19)2013, दिनांक 22.03.2013 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।


बी०आर० टम्पा
अपर सचिव।

मंख्या: ३१८(१)/XXVIII-२/०३(१९)२०१३, तदिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही इतने प्रेरित

- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
 - सचिव, स्वास्थ्य, जमू एवं कश्मीर, श्रीनगर।
 - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अमरनाथ जी श्राईन बोर्ड, राजभवन, श्रीनगर।

4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, मढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. सप्तस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, सूचना एवं समर्क विभाग, उत्तराखण्ड को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
8. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
9. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
10. संबंधित अधिकारीगण द्वारा महानिदेशक।
11. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल जाईस्वाल)
अनु सचिव।